



जनसम्पर्क कार्यालय: एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

समाचार

बिजली कंपनियों 14 सितंबर हिंदी दिवस पर मनाएंगी भव्य हिंदी महोत्सव

जबलपुर, 6 सितंबर। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर इस वर्ष बिजली क्षेत्र की जबलपुर स्थित चारों बिजली कंपनी – एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में भव्य हिंदी महोत्सव का आयोजन होगा। विद्युत परिवार हिंदी महोत्सव में 14 सितंबर को प्रश्नमंच का आयोजन होगा।

हिंदी महोत्सव के आयोजन हेतु कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने एवं सभी कंपनी की भागीदारी बढ़ाने एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा जबलपुर स्थित चारों बिजली कंपनी से आग्रह किया जा रहा है। हिंदी महोत्सव के कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि हिंदी महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार 14 सितंबर को प्रश्न मंच कार्यक्रम आयोजित होगा। हिंदी समिति के अध्यक्ष मुख्य महाप्रबंधक-मानव संसाधन एवं प्रशासन श्री एम.पी. चिंचोलकर, कार्यक्रम संयोजक अतिरिक्त महाप्रबंधक श्री व्ही.के. साहू, हिंदी समिति के उपाध्यक्ष श्री राकेश पाठक, साहित्य सचिव श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव, महासचिव श्री राजेश पाठक, श्री आलोक श्रीवास्तव, श्री पंकज स्वामी, श्री सुधीर पाण्डेय, श्री सुभाष मिश्रा, श्री मोहन श्रीवास, श्री संजय आनंद, श्रीमती शिल्पा ताम्हणे, श्री के.पी. श्रीवास्तव, श्री विकास शुक्ला, श्री हितेश तिवारी और राजीव गुप्ता ने सभी विद्युत कंपनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया है।

समाचार क्रमांक 416/2017

(राकेश पाठक)

वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी